

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2018-19	2019			2018-19	2019		
		अप्रैल	मई	जून		अप्रैल	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	136.63	11.48	12.49	11.83	1,715,520.61	148,481.20	158,379.63	152,991.31
1.1 ग्राहक लेनदेन	133.30	11.23	12.22	11.60	1,184,368.12	93,080.66	104,886.16	101,776.08
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	3.31	0.25	0.26	0.22	172,513.75	19,372.66	19,087.66	18,241.35
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.027	0.002	0.003	0.002	358,638.74	36,027.89	34,405.81	32,973.89
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	3.62	0.25	0.31	0.31	1,165,510.38	95,078.03	108,987.82	109,183.63
2.1 सीबीएलओ	0.130	—	—	—	181,404.63	—	—	—
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.11	0.09	0.13	0.15	509,315.87	48,748.73	64,438.30	68,284.52
2.2.1 एकमुश्त	0.81	0.06	0.09	0.11	93,550.07	7,915.80	10,329.18	15,074.46
2.2.2 रिपो	0.216	0.016	0.022	0.020	271,249.89	16,857.34	24,166.31	24,412.04
2.3 विदेशी समाशोधन	0.09	0.02	0.02	0.02	144,515.90	23,975.59	29,942.82	28,798.02
3 पेपर समाशोधन	2.38	0.16	0.19	0.16	474,789.88	46,329.31	44,549.52	40,899.10
3.1 चेक ट्रंक्शन प्रणाली	1,123.76	89.79	92.11	83.96	82,460.65	7,268.12	7,170.78	6,357.98
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	1,111.67	89.36	91.77	83.65	81,535.92	7,235.33	7,136.88	6,330.18
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.2 अन्य केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	—	—	—	—	—	—	—	—
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	12.09	0.44	0.34	0.32	924.73	32.79	33.91	27.81
4.1 ईसीएस नामे	7,113.25	731.85	683.81	643.65	258,745.44	23,801.05	24,834.16	20,580.81
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	0.93	0.03	0.03	0.03	12.60	0.09	0.09	0.09
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	5.36	0.52	0.29	0.33	132.35	11.87	7.77	9.24
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	2,318.89	203.44	217.68	199.14	227,936.08	20,546.69	21,277.74	17,496.45
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	1,752.91	185.04	183.33	171.33	15,902.57	1,691.97	1,804.56	1,730.19
	3,035.17	342.82	282.48	272.83	14,761.84	1,550.43	1,744.00	1,344.84
5 कार्ड	16,046.26	1,384.27	1,397.34	1,355.80	45,121.45	3,974.05	4,139.95	3,969.21
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,772.36	167.79	174.04	163.16	6,078.81	580.50	616.76	570.94
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	9.77	0.86	0.89	0.79	45.33	4.02	4.17	3.80
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,762.59	166.92	173.15	162.37	6,033.48	576.48	612.58	567.14
5.2 डेबिट कार्ड	14,273.90	1,216.48	1,223.30	1,192.64	39,042.64	3,393.55	3,523.19	3,398.27
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	9,859.61	808.91	815.71	786.11	33,107.89	2,843.96	2,946.67	2,828.54
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	4,414.28	407.57	407.59	406.53	5,934.75	549.58	576.52	569.73
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	4,604.34	420.97	419.00	389.82	2,128.76	185.54	182.97	177.64
6.1 एम-वॉलेट	4,139.28	380.62	367.45	334.70	1,836.55	159.75	157.27	154.71
6.2 पीपीआई कार्ड	465.00	40.35	51.54	55.12	291.34	25.79	25.70	22.93
6.3 पेपर वाउचर	0.05	0.00	0.00	0.00	0.87	—	—	—
7 मोबाइल बैंकिंग	6,200.32	881.23	841.74	848.61	29,584.07	4,020.18	4,850.08	4,975.43
8 कार्ड बकाया	971.72	932.77	873.85	886.20	—	—	—	—
8.1 क्रेडिट कार्ड	47.09	48.00	48.92	49.31	—	—	—	—
8.2 डेबिट कार्ड	924.63	884.78	824.93	836.89	—	—	—	—
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	221703	227164	227227	226757	—	—	—	—
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	3722229	3757621	3845111	3991007	—	—	—	—
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	29,027.83	2,638.61	2,605.07	2,485.36	2,910,848.56	242,760.11	269,289.51	260,286.70

टिप्पणी : पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।

2.2.3: 5 नवंबर 2018 से सिक्युरिटीज सेगमेंट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।